Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/2024-25/41 Date: August 09, 2024

To,

BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
(Maharashtra)

(Scrip Code: BSE- 522249)

National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5<sup>th</sup>Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051 (Maharashtra)

(Trading Symbol: MAYURUNIQ)

Subject: Newspaper advertisement of Extract of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter ended on June 30, 2024.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of Extract of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter ended on June 30, 2024 published in the English and Vernacular Language newspaper on August 09, 2024.

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you,

For Mayur Uniquoters Limited

Pawan Kumawat
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. – ACS 25377

# **Smartwatches Demand Cools off. Drags Wearables Mkt 10% in June Otr**

IDC says brands have turned cautious. focusing on clearing inventory ahead of festive season

### Our Bureau

OUT BUTCHE

New Delhi: India's wearable devices market declined for the first time, down 10% year-on-year to 23.5 million units in the quarter to June, dragged by falling demand mainly for smartwat-tious in stocking inventory and focused on clearing inventory ahead of the festive season, a report said. It added that shipments of smartwatches are exceeded to decline 10% in 2024.

port said. It added that ship-ments of smartwatches are ex-pected to decline 10% in 2024. The first half of 2024 saw 4.7% decline in the wearable market to \$5.1 million units, as warage sel-lumbled 103 do a vall segment to the control of the control of the \$18.8 in the April-June period, from \$21 a year ago, said a report by market tracker International Data Corporation (IDC). "Several new model launches by incumbent brands are expec-ted during the upcoming fiestive season which may help in arres-ting this decline," Vikas Shar-ma, senior market analyst, IDC India. "However, the annual shipments for smartwatches are

## **Airtel Payments** Profit Rises 41%

New Delhi:
Airtel Payments Bank on
Thursday said
its net profit for
Thursday said
its net profit for
Thursday said
its net profit for
To core, amid
uptick in digital
savings bank accounts alongscounts alongsto digital
savings bank acconsolidated report
card for the first
quarter ended
on June 30, 2024,
Airtel Payments Bank said it has hit a significant milestone and that, in
a first,
the
said it has hit a sigup to the first
prevenue grew
to 4610 crore, up by 41% year on year
—PTI



expected to decline by 10% in 2024. We will also possibly see refreshed smartwatch portfolios freshed smartwatch swarz 4.4% year-on-year plunger in the June quarter to 3.00 million units, while the earwear category sawa 4.0% increases to 3.0 million units, BC said.

"The share of smartwatches within wearables dropped to 3.5% from 3.9% in 2623. Charlen from 52.5% year ago due to price cuts to clear inventory. The second quarter saw the share of online channels increases within wearables and the to cost pressure vious guarter. The second quarter saw the share of online channels increase within wearables dropped to 3.1% from 3.5% from 3.9% in 2623. Charlen from 52.5% year ago due to price cuts to clear inventory. The second quarter saw the share of online channels increase to 53.4% from 62% in the price size of the second quarter to 3.00 million units, Will the first via years and the to cost pressure vious guarter. The same task of the second quarter to 3.00 million units, while the earwear category to saw 4.00 million units, Will the first via years and the to cost inventory. The second quarter saw the share of online channels with the first via years and the to cost inventory. The second quarter saw the share of online channels with the first via years and the to cost inventory. The second quarter saw the share of online channels with the first via years and the to cost inventory. The second quarter saw the share of online channels with the first via years and the to cost inventory. The share of the same than the use of offling channels with the ties via years and the to cost inventory. The share of the same than the use of offling channels with the ties via years and the ore share and the overall was and the ore share and the overall was and the ore share and the overall was



THE ECONOMIC TIMES
CAMPUS
SPOTLIGHT

## **CHRIST University Delhi NCR** Hosts Ed-Tech Connect 2.0

On 5 August 2024, CHRIST (Deemed to be University), Delhi NCR Campus, hosted Ed-Tech Connect 2.0, organized by the Department of BBA. Featuring Mr. Rajat Arora, Co-Founder of

DeeCeeline, the event was supported by title sponsor AceIPM and co-sponsors Coffee Table and OfStudy.

Mr. Arora delivered an inspiring keynote, "From Ordinary to Extraordinary," emphasizing personal development, perseverance, and effective communication. The session, broadcasted live on the university's YouTube channel @SBMNCR, included a O&A segment where students engaged enthusiastically. The event was overseen by Dr. Kushagra Mishra Associate Dean Dr. Jeanne Poulose, and faculty coordinators Dr. Pratibha Giri and Dr. Babita Chaudhary, concluded fervent applause and a podcast recording at the CDL, m Ed-Tech Connect 2.0 a memorable and enriching experie

## Telcos Urge Global Vendors to Absorb Duty Hike

Operators say they are yet to monetise 5G business and gauge impact of recent tariff increase

Kolkata: Bharti Airtel, Reliance Jio and Volafone Idea (VI) are pushing global vendors Nokia, Ericsson and Samsung to absorb the latest hike in basic customs duty (BCD) on printed circuit board assembly (PCBA), saying they are inno position to shell out an extra 5% to wards 46756 network rollouts/expansions, poople aware of the matter said. Operators reason that they are yet to moneties their 3G businesses and even the full impact of the recent headline tast thinks of 11-25% will reach them only

RAISING CONCERN

COAI said higher basic customs duty on PCBAs

will increase cost of providing services as telcos continuously upgrade their networks with the advent of new technology

by the December quarter of FY25.

"There is pressure on network vendors to absorb the increased BCD on imported PCBAs as the telcos say they have just initiated tariff repair, and the benefit of the recent tariff hikes and increase 5G business monetisation challenges," a senior executive of a leading the ventor to the senior consecutive of a leading with vendors to contain deployment costs come at a time when Jio and Airtel costs come at a time when Jio and Airtel costs come at a time when Jio and Airtel serior in talks with their global equipment suppliers to collectively buy around \$2.

# M Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaitpura, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Rai,) India.
Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC006952 Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr⊚mayur.biz

**Extract of Consolidated Financial Results** for the Quarter Ended 30th June 2024

(Rs. in Lakhs, except stated

ſ		Particulars		Quarter Ended			
	SI.No.		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	
Ī	1	Total Income from Operations	22,404.77	22,757.48	20,902.62	83,482.67	
	2	Operating Profit (PBIDT)	5,902.68	4,799.03	4,750.45	19,068.12	
1	3	Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax	5,137.31	3,993.01	3,972.66	15,881.97	
Í	4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax	3,737.80	3,221.54	3,053.43	12,246.83	
Î	5	Total Comprehensive Income for the period	3,782.78	3,149.67	3,042.20	12,226.97	
Ì	6	Equity Share Capital (of Rs. 5/- each)	2,197.63	2,197.63	2,197.63	2,197.63	
ď	7	Other Equity (Reserves)		-		84,512.42	
	8	Earning Per Share:					
		- Basic (in Rs.)	8.50	7.32	6.94	27.86	
- [		- Diluted (in Rs.)	8.50	7.32	6.94	27.86	

ote: \*Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR)

(Rs. in Lakhs, except sta



and on behall of the Board of Directors
Suresh Kumar Poddar
Chairman & Managing Director & CEO
DIN-00022395











## E-TENDER NOTICE

Prince of the property of the

## EAST CENTRAL RAILWAY 🚳

Provision of one 220/132 KV Power Transformer including Bay at DFCCIL DGO GSS including 132 KV D/C Transmission line in DDU Division

### Open tender Notice No TRD

OT/05/DGO/TLine/24-25 E-dedders are immuted norm representations of contractors having grown experience, electrical cleanse and sound financial standing supported by the valid documents for the work as per defails grown below. The Mann of work with location: Design, supply extended. Instantial Contraction of the Contra obtained: www.ireps.gov.in

: Divnl. Elect. Engineer (TRD), DDU
R/0858/DDU/ETRD/T/24-25/44

Tender ID: 2024 STY 684478\_1 \* Controller of Stationery [I/c) \* Supply of Maplitho Paper 75 gsm, 86cm Reel \* Closing Date: 02-Sep-2024 \* PAC: Rs6695000

Ro.No:05-07/Aug/2024/PRD/(N)9

## PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala-147001) Corporate Identity Number: U40109PB2010SGC033813 Website: www.pspcl.in Mobile No. 96461-22067 E-Tender Enq. No. 7588/P-1/EMP-12744 dated 06.08.24

Dy. Chief Engineer/ Headquarter (Procurement Cell-1) GGSSTP, Roopnagar invites E-Tender ID No. 2024 POWER, 125082 1 for Procurement of Consumable items under YY Group for the Year 2024-25. For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.infrom 07.08.24/11.00 AM onwards. Note: - Corrigendum & addendum, if any will be publish online at https://eproc.punjab.gov.in

An	medabad Bench and shall be as under:	
	RELEVANT	PARTICULARS
1.	Last date for receipt of expression of interest	Saturday, 24 August 2024
2.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	Thursday, 29 August 2024
3.	Last date for submission of objections to provisional list	Tuesday, 3 September 2024
4.	Last date of issuance of final list of prospective resolution applicants	Friday, 6 September 2024
5.	Date of issue of Information Memorandum, Evaluation Matrix and Request for Resolution Plan to Prospective Resolution Applicants	Saturday, 7 September 2024
6.	Last date of submission of Resolution Plans	Monday, 7 October 2024
7.	Process email id to obtain EOI documents and to submit Expression of Interest	cirp.jbf@gmail.com

Mukesh Verm
Resolution Profession
IBBI Reg. No. IBBII/PA-0011P-01685019-20012752
Add: St. Verman Ver

## TVS HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as Sundaram-Clayton Limited)

Regd office: "Chaitanya", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam, Chennai 600 006. Tel: 044-2833 2115. Website: www.tvsholdings.com Email: corpsec@tvsholdings.com CIN: L35999TN1962PLC004792

### STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024

	Particulars	Standalone			Consolidated		
S. No		Quarte	r ended	Year ended	Quarte	r ended	Year ended
	Particulars	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024
		(Unau	dited)	(Audited)	(Unau	idited)	(Audited)
1	Total Income	136.37	589.02	1,646.56	10,483.12	9,587.99	40,282.02
2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional Items)	15.02	48.02	415.19	732.28	614.04	2,791.49
3	Net Profit / (Loss) before tax (after Exceptional Items)	15.02	44.69	410.12	732.28	610.71	2,786.42
4	Net Profit / (Loss) after tax (after Exceptional Items)	12.82	27.95	338.74	481.03	409.41	1,782.38
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	12.80	25.69	336.08	451.09	359.35	1,728.28
6	Equity share Capital (Face value of Rs.5/-each)	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			1,439.45			2,829.95
8	Securities Premium	36.44	36.42	36.42	36.44	36.42	36.42
9	Networth	1453.12	746.14	1,440.37	2,809.37	3,023.55	2,619.28
10	Outstanding Debt (Excluding Non Convertible Redeemable Preference Shares)	643.64	770.55	550.00	26,958.06	25,842.69	26,232.48
11	Outstanding redeemable Preference Shares		2346.92	-		2,346.92	-
12	Debt Equity Ratio (Including exceptional item)	0.39	1.01	0.31	7.70	6.41	8.24
13	Earnings Per Share (Face value of Rs.5/-each) (not annualised) (In Rs.) (i) Basic (ii) Diluted	6.34 6.34	13.81 13.81	167.43 167.43	107.20 107.20	97.09 97.09	395.60 395.60
14	Capital Redemption Reserve	- NOT APPLICABLE -					
15	Debenture Redemption Reserve			- NOT APP	LICABLE -		
16	Debt Service Coverage Ratio (Excluding NBFC Subsidiary)	NA	2.73	NA	NA	1.17	NA
17	Interest Service Coverage Ratio (Excluding NBFC Subsidiary)	NA	6.34	NA	NA	8.22	NA
18	Current ratio (Times)	NA	0.87	NA	NA	1.01	NA
19	Long term debt to working capital (Times)	NA	-	NA	NA	3.08	NA
20	Bad debts to Accounts Receivable (Times)	NA	87.	NA	NA	-	NA
21	Current Liability Ratio (Times)	NA	0.54	NA	NA	0.61	NA
22	Total debts to total assets ratio (Times)	0.30	0.38	0.23	0.59	0.61	0.59
23	Debtors Turnover ratio (Times)	NA	7.54	NA	NA	22.96	NA
24	Inventory Turnover ratio (Times)	NA	3.53	NA	NA	7.14	NA
25	Operating Margin (%)	NA	12.71	NA	NA	13.16	NA
26	Net Profit Margin (%)	9.40	4.74	20.57	4.59	4.38	4.44

8th August 2024

- es:
  The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 & 52 of the Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock exchanges web www.nseindia.com) and on Company's website (www.tvsholdings.com).
- www.nsenida.com) and on Company's website (www.tv-blodings.col). Pursuant to the scheme of arrangement approved by Horble National Company Law Tribunal, Chennal, the Die casting business of the Company was demerged on 100 years of the 100 years

For TVS Holdings Limited

**FINANCIAL EXPRESS** 

# **BARCLAYS-HURUN REPORT**

# Top 3 biz families valued close to Singapore's GDP

**SWARAJ BAGGONKAR** Mumbai, August 8

**INDIA'S TOP THREE** business families—Ambani, Bajaj and Kumar Mangalam Birla—have a combined net worth exceeding \$460 billion, nearly equivalent to Singapore's GDP, according to the 2024 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses report. According to the report, the Ambani family leads the list, with Reliance Industries valued at an astounding ₹25.75 trillion, driven primarily by its dominance in the energy and telecom sectors.

Following them is the Bajaj family, with interests spanning the automobile, finance, and auto components industries through the Bajaj Group, which is valued at ₹7.12 trillion.

In third place is the Aditya Birla Group, managed by the Kumar Mangalam Birla family, with a valuation of ₹5.38 trillion, largely due to its significant presence in the metals and mining sectors. The Jindal family, through their involvement in JSW Steel and the mining sector, holds a valuation of ₹4.71

Manner of registering/ updating email addresses:

Manner of casting vote through e-voting:

: 8th August, 2024

YoY

income u

7%

YoY

PBIDT up

24%

YoY

PAT up

22%

with regards to physical shareholders is not applicable to the Company.

200

PARAG

AMBANI, BAJAJ, KM BIRLA FAMILIES' NETWORTH TOPS \$460 BN

Rank Family (flagship firm/group) Value (₹ trillion) 25.75 Bajaj 7.13 (Bajaj group) Kumar Mangalam Birla 5.39 (Aditya Birla group) Jindal (JSW St 4.71 (JSW Steel) Nadar 4.31 (HCL Technologies) Mahindra 3.45 (Mahindra & Mahindra) Dani, Choksi & Vakil 2.71 (Asian Paints) Premji 2.58 Rajiv Singh 2.05 10 Murugappa 2.02 Source: 2024 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Business

trillion. Meanwhile, the Nadar family, with its stake in the software and services sectorvia HCL Tech, is valued at ₹4.30 trillion.

Perhaps the most diversified among these families is the Mahindra family, which has

NOTICE

INFORMATION REGARDING 32rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through VC/OAVM, the

schedule of which will be communicated in due course to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM of the

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued

in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circular dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being SEBI Circular

No SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, permitted the holding of AGM through VC/OAVM,

without the physical presence of the Members at a common venue. The AGM of the Company will be held through VC/OAVM in

compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made

In compliance with the above Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for Financial Year 2023-24 ("Annual Report")

shall be sent in due course only in electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/

Registrar and Share Transfer Agents or the Depository Participant(s). The physical copies of the Notice of AGM and Annual

Report will be dispatched to those shareholders who request for the same. The Notice of the AGM and Annual Report will also

be made available on the website of the Company i.e. https://www.paragmilkfoods.com and the websites of the stock exchanges

i.e. https://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through

In order to receive the Notice and Annual Report, Members are requested to register / update their email addresses, with the

Depositories through the concerned Depository Participants in respect of shares held in electronic mode. All the shareholding of the Members of the Company as on date is in dematerialized form, hence, the requirement of complying with the procedure

The Company shall provide remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on the businesses as set forth in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also be providing the facility of voting through e-voting system during the

AGM. Detailed procedure of casting the votes through e-voting will be provided in the Notice of the AGM. If your email address

is already registered with the Company/ Depository, the login credentials for casting the votes through e-voting will be sent on

**Particulars** 

Total Income from Operations

Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax

Net Profit / (Loss) for the period After Tax

Total Comprehensive Income for the period

Equity Share Capital (of Rs. 5/- each)

Operating Profit (PBIDT)

Other Equity (Reserves)

Earning Per Share:

Basic (in Rs.)

Diluted (in Rs.)

your registered email address. Members are requested to update their email addresses with their Depository Participants.

thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM shall be contained in the Notice of the AGM.

PARAG MILK FOODS LIMITED

CIN:L15204PN1992PLC070209

egistered Office: Flat No 1, Plot No 19, Nav Rajasthan Housing Society, Behind Ratna Memorial Hospital

Shivaji Nagar, Pune, Pin-411016, Maharashtra, India, Tel. No.: 022-43005555

Website: www.paragmilkfoods.com, Email id: investors@parag.com

ations as of March 20. The valuinterests across various sectors, including automotive, IT, real ation methodology excluded private investments and liquid estate, defence, and timeshare holidays through Mahindra & assets, and adjustments were Mahindra, valued at ₹3.45 trilmade for cross-holdings to prelion. The rankings were detervent double counting. mined based on company valu-

कॉनकोर concor

Anas Rahman Junaid, founder and chief researcher of Hurun India, noted, "Around 75% of the entrants in the list registered growth in value compared to last year. With 28 companies in industrial products, 23 in the automobile sector, and 22 in pharmaceuticals, these businesses are pivotal in enhancing India's global competitiveness and economic resilience."

# Biocon Q1 profit jumps six-fold to ₹660 crore

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 8

**BIOTECHNOLOGY FIRM BIO-CON** on Thursday said its consolidated profit after tax rose over six-fold to ₹660 crore in Q1, on account of a one-time gain from the collaboration between Biocon Biologics and Eris Lifesciences. The firm had reported a PAT of ₹101 crore in the June quarter of last fiscal. Revenue from operations stood at ₹3,433 crore during the period under review as against ₹3,423 crore in the year-ago period, Biocon said in a regulatory filing. The company said the firstquarter figures included proceeds of ₹1,057 crore on account of the strategic collaboration between Biocon Biologics and Eris Lifesciences.

"This strong performance was primarily on account of a one-time gain from the strategic collaboration between Biocon Biologics and Eris Lifesciences. The underlying business performance of the company has been in line with our expectations," Biocon executive chairperson Kiran Mazumdar-Shaw said.

The outlook for this fiscal remains positive as the company anticipates stronger growth in the second half of FY25, with new product launches in the biosimilars and generics businesses, including Liraglutide for diabetes and obesity in the UK and other markets, she added. "Additionally, we expect improved business prospects for Syngene, supported by a resurgent biotech US," Mazumdar-Shaw stated.

funding environment in the भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India) Regd. Office & Investors Relation Centre: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi – 110076 CIN: L63011DL1988GOI030915, e-mail: investorrelations@concorindia.com Tel. Nos.: 41673093-96, 41222500/600/700, website: http://www.concorindia.co.in

For Container Corporation of India Ltd.

ED (Finance) & Company Secreta

(Rs. in Lakhs, except stated)

**Year Ended** 

31.03.2024

(Audited)

83,482.67

19,068.12

15,881.97

12,246.83

12,226.97

2,197.63

84,512.42

27.86

27.86

(Rs. in Lakhs, except stated)

(Harish Char

Notice is hereby given that 17" August, 2024 (Saturday) has been fixed as the Record Date for the

ourpose of determining the entitlement of members to Interim Dividend @40% (Rs. 2.00 per share

on equity share of Rs. 5/- each), declared by the Board in its meeting held on 08.08.2024 for the

i) to those Members whose names will appear in the Register of Members of the Company, after

giving effect to all valid Share Transfers in physical form lodged with the Company and its Registra

on the Statements of beneficial ownership furnished by National Securities Depository Limited

(NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), at the end of business hours or

n order to avail the facility of payment of dividend through Electronic Clearing Service (ECS)

nembers of the Company, holding their shares in Demat mode are requested to submit the duly

illed in ECS mandate form to their Depository Participant and those holding physical shares to

Company's Share Transfer Agent and Registrar: M/s Beetal Financial & Computer Services (P.

Ltd., BEETAL HOUSE, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada

Harsukhdas Mandir, New Delhi - 110062. ECS instructions once furnished by the member will

supersede all his/ her previous bank mandates/details. ECS mandate form is available on

30.06.2023

(Unaudited)

20,902.62

4,750.45

3,972.66

3,053.43

3,042.20

2,197.63

6.94

6.94

inancial year 2024-25. Further, Interim dividend will be paid

Company's website: www.concorindia.co.in.

**Quarter Ended** 

31.03.2024

(Unaudited)

22,757.48

4,799.03

3,993.01

3,221.54

3,149.67

2,197.63

7.32

7.32

Date: 08.08.2024

In this war of words, some manufacturers have claimed that giving incentives to

product strategy.

RAJAN WADHERA

**IN RECENT DAYS** there has

been an intense debate among

leading Indian car manufac-

turers on the recent UP Gov-

ernment's EV policy on

whether to incentivize Hybrids

or not. Having spent more than

four decades in the Auto Indus-

try, developing products, work-

ing on clean technologies, run-

ning a company and heading a

research organisation, a fair

conclusion can be drawn that

nothing is above the national

interest, and it can be said that

to Hybrids, the ones who have

Hybrid models want incen-

tives, while the ones who do

not have Hybrid models in the

market want the UP Govern-

ment to withdraw incentives

in the national interest for

which the whole EV policy has

been framed? The national

oil import bills, as outlined by

The question arises what is

on Hybrids.

emissions.

hybrids must coexist Hybrids will affect their EV plans. That is not true. EVs have their hurdles to adoption like charging infrastructure, upfront cost, anxiety on resale value, financing, safety-related concerns, etc. In fact, as per a recent research survey, more than 50% of the existing EV customers want to switch back to ICE vehicles. This indicates that there are gaps within the

Electric vehicles and

Large-scale adoption of strong hybrids in India would lead to a meaningful reduction in

total EV offering to the cus-

the import bill, cutting down carbon emissions and making it an environmentallyfriendly move

the whole debate is avoidable in the larger national interest. tomer that need to be plugged Both sides will unaniin. Manufacturers need to mously agree that they want work both individually and incentives for Battery Electric jointly with all stakeholders to Vehicles (BEVs). When it comes address these hurdles.

Incidentally, India is not alone in this challenge, but the hurdles are similar all over the world. But it is entirely incorrect to say that the growth of EVs is restricted because of Hybrids and it is time to understand that technology needs to come into play for the transition between ICE vehicles and EVs and currently nothing seems better than the hybrids.

interest lies in reducing crude Both EVs and hybrids have Prime Minister, Narendra achieved about 2% sales pen-Modi, time and again and in etration each currently, which reducing the country's carbon adds up to 4%.

As a country, we want this It is perfectly possible and 4% to grow at the expense of legitimate that different car the balance of 96%. Hybrids manufacturers adopt differreduce petrol consumption and CO2 emissions by a good ent pathways for achieving these two objectives. It is not 30-40%.

necessary that every manufac-Since they do not need turer find every technology charging infrastructure, they suitable as per their market or have the potential to proliferate and deliver results fast. Considering that EVs may not grow beyond 20-30% sales penetration even in the next

10 years, there is absolutely no logic in blocking or holding back Hybrid technology. Both these technologies complement each other.

In fact, many components/modules are the same in EVs and Hybrids like the motor, the power electronics, etc. The combined volumes of both EVs and Hybrids will give economies of scale and scope to make manufacturing of these components/modules in India viable.

Various credible industry, academia, and government bodies have independently studied the benefits of Hybrids and recommended incentivization of this technology Even globally, in many countries including China, the US, the UK, and France, Hybrid penetration is increasing and most of the countries are incentivising this technology through lower taxation to encourage mass adoption.

Therefore, in my opinion, large-scale adoption of strong hybrids in India would lead to a meaningful reduction in the import bill, cutting down carbon emissions and making it an environmentally-friendly move.

Hybrids will not only complement BEVs but also derisk our decarbonisation roadmap.

In fact, both Hybrids and BEVs combined could replace the pure petrol / diesel engine vehicles, which is in any case required to meet these objectives.

The need of the hour is to rise above this debate and work towards developing and offering these technologies, increase customer confidence, and make India a manufacturing hub for all electrified technologies.

(The writer is former SIAM president, former president Mahindra & Mahindra (Automotive Sector) and former President ARAI. Views are personal)

# Bharat Forge's profit dips 13%

**GEETA NAIR** Pune, August 8

FORGE (BFL) BHARAT reported a 13.5% year-on-year (y-o-y) decline in net profit to ₹269.42 crore for the June quarter, despite a 9.9% increase in revenue to ₹2,338 crore. Margins expanded by 200 basis points to 28.1%. On Thursday, the company's board approved a fundraise of ₹2,000 crore.

Amit Kalyani, vice-chairman and joint MD of Bharat Forge, stated that these funds would be used to expand the company's manufacturing footprint in India, through both greenfield and organic expansion. Kalyani, during the company's investor call, said that the capital raised would support the growth of both domestic and global businesses. He noted that the last time the company raised capital

was in 2010-11, following the financial crisis, and there has been no capital raised since. The fundraising could be executed through equity, debt or a combination of securities, including further public offers, rights issues, American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs), or Foreign Currency Convertible Bonds.

The company saw steady execution of defence export orders and a recovery in the oil & gas sector, Kalyani said. It secured new orders worth ₹980 crore across its defence, ferrous and aluminium castings, and core forging businesses. BFL's defence segment surged 147% to ₹642 crore. With order wins amounting to ₹775 crore, the executable order book as of June 30 stood at ₹5,400 crore, comprising a mix of artillery guns, vehicles, and consumables.

# Festive mode: E-tailers may hire 1 million gig workers

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, August 8

E-COMMERCE SECTOR IS likely to hire 1 million gig workers and 250,000 contractual staff during the upcoming festive season to cater to surge in demand, TeamLease Ser-

vices said on Thursday. The e-commerce industry is poised for a 35% surge in sales during the upcoming festive season, which is a substantial leap from the previous year, TeamLease Services senior VP and business head Balasubramanian A said in a statement.

"This festive season, e-commerce will drive sales and fuel job creation on a massive scale. With 1 million gig workers and 250,000 contractual staff to be employed, the e-commerce sector's role in employment generation will be significantly impacted. This hiring boom not only underlines the sector's critical role in creating jobs but also its substantial contribution to India's vision of becoming a \$5 trillion economy by 2025," he said.

Projections indicate that by 2026, the inclusive nature of the sector will be evident, with tier II, III, and IV cities and rural India driving more than 60% of the demand for e-commerce, he noted.

As the demand for e-commerce services continues to surge, it is observed that e-commerce companies are stepping up, Balasubramanian said.

They are gearing up to hire for multiple roles, including delivery personnel, warehouse workers, and customer service representatives, as well as roles in packaging, labeling, quality control, and order fulfillment, he added.

# Eicher surpasses profit estimates on strong RE sales

**REUTERS** Bengaluru, August 8

EICHER MOTORS, WHICH makes the Royal Enfield line of motorcycles, reported a biggerthan-expected first-quarter profit on Thursday, helped by strong sales of higher-margin models such as the Himalayan 450. The company's profit rose almost 20% year-on-year (y-oy) to ₹1,101 crore in the April-June quarter, beating analysts' average estimate of ₹1,014 crore, as per LSEG data.

Eicher clocked record-high sales in the previous two fiscal years due to strong demand from urban consumers, its key demographic. But demand has begun to peter off due to various factors, including rising competition and persistently high inflation.

Still, domestic sales of Royal Enfield's models with an engine capacity of more than 350cc, such as the Interceptor

650, jumped 29% in the quarter, according to previously released monthly data. These higher-margin motorcycles accounted for roughly 14% of sales, up from 11.1% last year. That helped counter the roughly 4% drop in domestic sales of the company's sub-350cc models, such as the Hunter 350, which accounted for roughly 85% of overall sales.

Overall revenue from operations, which includes sales of commercial vehicles such as trucks, rose more than 10% to ₹4,393 crore, topping analysts' estimate of ₹4,238 crore.

Royal Enfields are the market leader among India's premium motorcycles, but its lead is being eaten into by Triumph, which has partnered with Bajaj Auto in India, as well as Harley Davidson, whose local partner is the country's No.1 two-wheeler company, Hero MotoCorp.



Handbag

Note: \*Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) **Quarter Ended Particulars** 31.03.2024 30.06.2024 (Unaudited) (Unaudited) Turnover 19,474.17 21,610.22

By Order of the Board of Directors

M Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaitpura, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India.

Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC006952 Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz

**Extract of Consolidated Financial Results** 

for the Quarter Ended 30th June 2024

For Parag Milk Foods Limited

Devendra Shah

DIN: 01127319

Chairman

30.06.2024

(Unaudited)

22,404.77

5,902.68

5,137.31


3,737.80

3,782.78

2,197.63

8.50

8.50




and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Quarterly and Yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com, and also on Company's website at www.mayuruniquoters.com For and on behalf of the Board of Directors

Place: Jaipur Date: August 8, 2024

**Suresh Kumar Poddar** Chairman & Managing Director & CEO DIN-00022395











financialexp.epapr.in

# रिपेयरिग सुविधा

# रिकवरी के ट्रैक पर टीवीएस ने लगाया टॉप गिअर

 सेल्स और मार्केट शेयर में हो रही लगातार ग्रोथ

जयपुर@ऑटो डेस्क

टीवीएस इज ऑन द रोल...टीवीएस इज ऑन द फास्ट्रेक...टीवीएस इज राइडिंग हाई। कितना भी लिखो लेकिन सेंटिमेंट कहता हैं कि टव्हीलर दिग्गज टीवीएस ग्रोथ टेजेक्टरी पर है। प्रॉडक्ट, सेल्स, बज़ और आउटलुक के सभी फैक्टर सही सिंक हो रहे हैं। अप्रेल-जून क्वॉर्टर में टीवीएस की मोटरसाइकल सेल्स 11 परसेंट और स्कूटर सेल्स 19 परसेंट बढ़ी है। और...आईक्यूब भी तीन महीने में 52 हजार बिके यानी महिने में 17 हजार जो ब्लॉकबस्टर मुवी की कसी हुई स्क्रिप्ट जैसी है। आईक्यूब रेंज की एंट्री प्राइस नीचे लाने से कस्टमर कैचमेंट का विस्तार होगा और इसका फायदा आने वाले महीनो में दिखेगा। जैसे-जैसे मार्केट में रिकवरी हो रही है टीवीएस ट्रव्हीलर सैगमेंट में मार्केट शेयर को भी बढा रही है।

मार्केट एनेलिस्ट फिलिप कैपिटल के अनुसार नॉर्टन ब्रांड को लेकर कंपनी अब

क्लीअर रोडमैप दे रही है। इसकी प्राइस पोजिशनिंग अफोर्डेबल होने से प्रीमियम टव्हीलर सैगमेंट में शेयर बढाने में मदद मिल सकती है। कंपनी आने वाले महीनो में ट्रव्हीलर और थ्रीव्हीलर सैंगमेंट में आइस और ईवी पावरटेन ऑप्शन के साथ नए प्रॉडक्ट लॉन्च करने वाली है।

अभी हाल ही कंपनी के एमडी सुदर्शन वेणु ने कहा था कि टीवीएस जुपिटर स्कूटर का सीएनजी अवतार तैयार कर रही है। जुपिटर का न्यु जेनरेशन मॉडल भी आने वाला है। टीवीएस मोटर के चेअरमैन रैल्फ स्पेथ कहते हैं कि "With a young, intelligent,



Gear		thriving workford
		the nation is wel
	Market	positioned t
	Share%	leverage it
	14.18	advantages.
	14.79	वे कहते हैं वि
	15.09	जिओ पॉलिटिक्स, जिउ

जिओ पॉलिटिक्स, जिओ इकोनॉमिक्स में जो शिफ्ट हो रहा है उसका फायदा आने वाले सालों में भारत

को मिलेगा। देश में मॉनसून अच्छा बरस रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर बढ़िया हैं और रूरल डिमांड में वैसे ही रिकवरी हो रही ऐसे में आने वाले महीनों में ट्रव्हीलर सेल्स में ग्रोथ होगी। कंपनी की एजीएम के मौके पर उन्होंने कहा कि बीएमडब्ल्यू मोटोरैड के साथ मिलकर ग्लोबल मार्केट के लिए नये प्रॉडक्ट्स डवलप

किए जाएंगे। टीवीएस और बीएमडब्ल्यु मोटोरैड ने अप्रेल 2013 में 500 सीसी से कम मोटरसाइकल सैगमेंट के लिए एक पार्टनरशिप की थी।

कोविड वाले वित्तवर्ष 2020 में कंपनी ने 23.87 लाख ट्रव्हीलर बेचे थे और 14.18 परसेंट मार्केट शेयर के साथ तीसरे पायदान पर थी। इससे अगले साल यानी वित्तवर्ष 2021 में टीवीएस की सेल्स कोविड इफेक्ट के कारण घटकर 17.05 लाख यूनिट्स के लेवल पर आ गई लेकिन सेल्स में बड़ी गिरावट के बावजूद इसके मार्केट शेयर में ग्रोथ दर्ज की गई। इसके बाद से ही कंपनी की सेल्स और मार्केट शेयर में ग्रोथ का दौर चल रहा है। बाद के तीन साल में टीवीएस की सेल्स बढकर 29.65 लाख यूनिट्स तक पहुंच चुकी है और मार्केट शेयर करीब 17 परसेंट तक पहुंच चुका है।

# ओला मोटरसाइकल १५ अगस्त को होगी लांच...

TVS in Top

FY 2020

FY 2021

FY 2022

FY 2023

FY 2024

Sales

(Units)

2387266

1705443

1804542

2489863

2965744

15.53

19.93



ओला इलेक्ट्रिक के लिए हर साल 15 अगस्त का दिन काफी खास होता है और इस दिन वह नए प्रोडक्ट पेश करती है। इस साल १५ अगस्त को ओला अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल पेश करने की तैयारी में है। कंपनी पहले कई बार रोडस्टर, एडवेंचर और स्पोर्ट्स सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक के प्रोटोटाइप की झलक दिखा चुकी है। कंपनी ने हाल ही अपनी अपकिमंग मोटरसाइकल का टीजर लॉन्च किया है। बाइक के फ्रंट फेसिया में डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ होरिजोंटल डीआरएल, हाई हैंडलबार और विंड वाइजर को दिखाया गया है। अपराइट राइडिंग पोजिशन वाली बाइक से लगता है ओला इलेक्ट्रिक की एंट्री लेवल रोडस्टर मोटरसाइकल होगी। इसमें कलर टीएफटी डिस्प्ले, ओला मैप्ल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नैविगेशन, जियो फेंसिंग, राइड मोड्स, प्रॉक्सिमटी लॉक और अनलॉक, डिस्क ब्रेक्स,एबीएस, अच्छे सस्पेंशन समेत काफी सारी नई खूबियां दिखेंगी। सिंगल चार्ज बैटरी रेंज 200 किलोमीटर तक की हो सकती है।

# वैरायटी

# A Strong Foundation lays the road for a Brighter Future

**AUM** - ₹ 21,726 Cr.

NET PROFIT AFTER TAX (Q1 FY 25) - ₹ 200 Cr.

**LIVE ACCOUNTS - 274,000+** 

PRESENCE ACROSS - 547 Branches & Offices 21 States & UTs

Toll Free - 1800 3004 2020 | www.aadharhousing.com

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDER

Sr. No.	PARTICULARS	For the quarter ended June 30, 2024	For the quarter ended June 30, 2023	(Rs. in Lak For the year ended March 31, 2024
<b>V</b> O.		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Revenue from Operations	71,314	59,342	2,58,681
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	25,724	18,740	95,959
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25,724	18,740	95,959
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	20,014	14,631	74,964
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	20,014	14,517	75,00€
6	Paid up Equity Share Capital	42,652	39,476	39,476
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	5,20,656	3,44,905	4,05,499
8	Securities Premium Account	2,28,551	1,33,700	1,33,700
9	Net worth	5,63,302	3,84,375	4,44,969
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	14,01,907	12,27,208	13,95,962
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	2.49	3.19	3.14
13	Earnings Per Share (not annualised for three months ended periods)			
	1. Basic:	4.86	3.71	18.99
	2. Diluted:	4.66	3.60	18.35
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	16,910	16,910	16,910
16	Debt Service Coverage Ratio	1.24	0.75	0.89
17	Interest Service Coverage Ratio	1.93	1.80	1.97
18	Total Debts to Total Assets (%)	70.18%	74.64%	73.64%
19	Net profit Margin (%)	28.06%	24.66%	28.98%
20	GNPA (%)	1.36%	1.49%	1.10%
21	NNPA (%)	0.87%	1.00%	0.65%
22	Provision Coverage Ratio (%)	36.13%	33.26%	41.27%
23	Capital Adequacy Ratio (CRAR) (%)	48.89%	42.26%	38.46%

Place: Mumbai

Date: August 07, 2024

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the Listing Regulations. The full format of

For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange BSE Limited and can be

Current ratio, Long term debt to working capital ratio, Bad debts to account receivable ratio, Current liability ratio, Debtors turnover, Inventory turnover and Operating margin (%) are not applicable

d) Key standalone financial information

Sr. No.	PARTICULARS	For the quarter ended June 30, 2024	For the quarter ended June 30, 2023	For the year ended March 31, 2024					
1	Total Revenue from Operations	69,678	57,801	2,52,353					
2	Profit before tax & exceptional items	25,722	18,736	95,923					
3	Profit before tax	25,722	18,736	95,923					
4	Profit after tax	20,008	14,628	74,851					
-) [	). Providence in a large land to the control of the								

For and on behalf of the Board of Directors of

Rishi Anand

Managing Director & CEO DIN 02303503

adhar Housing Finance Ltd., CIN: L66010KA1990PLC011409, Registered Office: No. 3, JVT Towers, 8th 'A' Main Road, Sampangiramanagar, Near Hudson Circle, Bengaluru-560 027 Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai – 400069 | Tel. No.: 022 4168 9900 | Fax: 022 4168 9934 | Cust

# लिपस्टिक इफेक्ट: फीलिंग गुड इन बैड डेज़

नफा नुकसान रिसर

29 जुलाई तो चली गई। वर्ल्ड लिपस्टिक डे होता है इस दिन। लेकिन लिपस्टिक तो एवरग्रीन है...सदाबहार है। स्लोडाउन में भी गुलज़ार है। हां, सही है जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है लिपस्टिक की डिमांड बढ जाती है। डिमांड बढ़ती है...सेल्स बढ़ती है और...कस्टमर अपग्रेड भी करते हैं। मार्केटर इसे लिपस्टिक इफेक्ट कहते हैं।

लिपस्टिक वैसे भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसी होती है। 1998 में एक किताब आई थी...द ओवरस्पेंट अमेरिकन...। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी की प्रॉफेसर जुलियट शोर ने अपनी इस किताब में लिखा है

कि कैश स्ट्रेप्ड यानी कंगाल महिला ज्यादा महंगी लिपस्टिक खरीदती है और बार-बार पब्लिक प्लेस पर टचअप करती है ताकि लोग देख सकें कि चिल इज द लाइफ...। शोर कहती हैं यह पूरा आइडिया अफोर्डेबल लक्जरी का है। अपस्केल स्टोर से खरीदना, फैंटेसी में जीना दरअसल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है जैसे लिपस्टिक ना हुई उम्मीद की दवा हो गई। कॉस्मेटिक्स बेरंग जिंदगी में चटख शेड्स भर देते हैं। जुलियट शोर ने तो अपने आईडिया को किताब में लिखा था। लेकिन कुछ साल बाद एस्टी लॉडर के चेअरमैन लिओनार्ड लॉडर ने कहा कि 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हवाई हमले के बाद लिपस्टिक की सेल्स में तेजी आई थी।

कार्नेगी मेलन युनिवर्सिटी में मार्केटिंग की प्रॉफेसर एरी लाइटमैन कहती हैं कि 9/11 हमले के बाद पसरे मुश्किल हालातों में भी लोग लक्जरी आइटम खरीद रहे थे। ब्यूटी और मेकअप आइटम्स लाइफ में बड़ा अजीब असर डालते हैं। आप कंगाली में हों तो भी डाउनग्रेड करने का मन नहीं होता।



हालांकि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लिपस्टिक सेल्स का यह जो पैटर्न है उसका कोई क्लीअर कट कॉज एंड इफेक्ट नहीं समझाया जा सकता। लेकिन मंदी शुरू होने से ऐन पहले या शुरू होने के तुरंत बाद ऐसा पैटर्न नजर आता है। केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रॉफेसर लिपस्टिक जोनाथन अर्स्ट कहते हैं कि लिपस्टिक इफेक्ट मार्केटिंग के थम्ब रूल्स को गलत साबित करता है। माना जाता है कि स्लोडाउन के दिनों में अनावश्यक प्रॉडक्ट्स की शॉपिंग कम हो जाती है। लेकिन इस पैटर्न से लगता है कि ऐसे माहौल में लोग बिग टिकट परचेज में कटौती कर लिपस्टिक जैसे स्मॉल इन्डलजेंस (छोटी-छोटी खुशियां) पर खर्च करने लगते हैं। अर्स्ट कहते हैं कि बुरे दौर में बिग टिकट परचेज टल जाते हैं जिससे कैश इन हैंड बचता है और वो स्मॉल इन्डलजेंस पर ज्यादा खर्च होने लगता है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि फीलिंग गुड इन बैड डेज़ वाला मामला है। सेल्स एंड मार्केटिंग कन्सल्टेंट जिल ब्लैंचार्ड कहते हैं वि आर्थिक दबाव का वित्तीय और भावनात्मक असर होता है

पंजीकत कार्यालय एवं फैक्टी : जयपर सीकर रोड, गांव जैतपरा, तहसील चौम, जिला जयपर, 303704 ( राजस्थान ) भारत वेबसाइट : www.mayuruniquoters.com ईमेल : secr@mayur.biz टेलीफोन : 91-1423-224001 **फैक्स**: 91-1423-224420 **सीआईएन**: एल18101आरजे1992पीएलसी006952

30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित वित्तीय परिणामों का सार

	( रुपये लाख में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा )							
क्र.	विवरण	समाप्त	तिमाही	समाप्त वर्ष				
सं.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024			
		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)			
1.	परिचालन से कुल आय	22,404.77	22,757.48	20,902.62	83,482.67			
2.	ब्याज, कर डेप्रीशिएशन व एमोर्टाइजेशन से पूर्व लाभ	5,902.68	4,799.03	4,750.45	19,068.12			
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/( हानि )	5,137.31	3,993.01	3,972.66	15,881.97			
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ∕( हानि )	3,737.80	3,221.54	3,053.43	12,246.83			
5.	अवधि के लिए कुल आय	3,782.78	3,149.67	3,042.20	12,226.97			
6.	अंश पूंजी ( रुपये 5 प्रति शेयर अंकित मूल्य )	2,197.63	2,197.63	2,197.63	2,197.63			
7.	अन्य अंश पूंजी ( रिजर्व )	-	-	-	84,512.42			
8.	प्रति शेयर आय :							
	मूल: ( रुपये में )	8.50	7.32	6.94	27.86			
	घूलित: ( रुपये में )	8.50	7.32	6.94	27.86			
नोट्स : सेबी ( एलओडीआर ) के नियम 47( 1 ) ( बी ) के अनुसार कंपनी की स्टेंडअलोन वित्तीय जानकारी : ( रुपये लाख में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा )								

नोट्	नोट्स : सेबी ( एलओडीआर ) के नियम 47( 1 ) ( बी ) के अनुसार कंपनी की स्टेंडअलोन वित्तीय जानकारी : ( रुपये लाख में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा )							
क्र.	विवरण	समाप्त	ितिमाही	समाप्त वर्ष				
सं.		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024			
		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)			
<sub>e</sub> 1.	कारोबार	19,474.17	21,610.22	19,191.54	76,424.04			
؞2.	परिचालन लाभ ( ब्याज, कर, डेग्रीसिएशन व एमोर्टाइजेशन से पूर्व लाभ )	5,334.61	4,765.94	4,660.30	18,659.17			
<sub>e</sub> 3.	कर पूर्व लाभ	4,575.50	3,971.16	3,892.57	15,510.46			
.4.	कर पश्चात लाभ	3,472.65	3,198.44	2,993.93	11,954.78			

\*उपरोक्त जानकारी समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित ब्योरेवार वित्तीय परिणामों से उद्धत की गयी है जो कि सेबी ( सुचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गयी है। समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टेंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाईट www.mayuruniquoters.com. पर उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड वास्ते हस्ताक्षर सुरेश कुमार पोद्दार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN-00022395



स्थान : जयपुर दिनांक: 8 अगस्त, 2024











YoY

up 7%

YoY

up 24%

PAT





